

प्रेस नोट

राजभाषा विभाग, दीव द्वारा आयोजित हुई हिन्दी देशभक्ति गीत प्रतियोगिता

दीव, दिनांक 10/9/2018- दिनांक 31-8-2018 से मानाये जा रहे हिन्दी पखवाड़े के दौरान आज दिनांक 10/09/2018 को राजभाषा विभाग, दीव द्वारा हिन्दी देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन समग्र शिक्षा अभियान सभागार में किया गया। प्रतियोगिता में सभी माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा महाविद्यालय के विद्यार्थियों सहित कर्मचारी और शिक्षकगण उपस्थित रहे।

प्रतियोगिता के आरंभ में सहायक निदेशक श्री अन्तर्यामी परिड़ा ने माननीय निर्णायकगण का शाब्दिक स्वागत सहित पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। प्रतियोगिता को निष्पक्ष रूप से संचालन के लिए तीन अलग-अलग निर्णायकों को आमंत्रित किया गया था। उना से संगीत शिक्षक श्री गौरव कापडिया, जवाहर नवोदय विद्यालय की संगीत शिक्षिका श्रीमती शिल्पा अपराजित और गोवा को-आपरेटिव बैंक के सहायक महा-प्रबन्धक श्री राजुभाई जोशी निर्णायक के रूप में इस प्रतियोगिता में अपनी भूमिका अदा की।

प्रतियोगिता चार चरणों में थी। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों से शुरू की गई एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय व शिक्षक एवं कर्मचारियों के गीत गायन के बाद समाप्त हुई। सभी विद्यार्थियों ने अपने गीत से पूरे माहौल को संगीतमय बना दिया। उनकी प्रस्तुति को देखकर यह प्रतीत होने लगा कि दीव के बच्चे पढाई में जिस प्रकार कुशलता का प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी उन्होंने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। प्रतियोगियों को उनकी प्रस्तुति के दौरान कहीं भी मंच का भय देखने को नहीं मिला। बहुत ही निर्भीकता और कुशलता से सभी ने अपनी-अपनी प्रस्तुति दी।

पूरे कार्यक्रम का संचालन सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की हिन्दी शिक्षिका प्रतिभा गौरीशंकर स्मार्ट ने बडी ही कुशलता से किया, जबकि आभार विधि राजभाषा विभाग, दीव के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री सुनील कुमार तिवारी ने बखुबी निभाई। कार्यक्रम के अन्त में तीनों निर्णायकों ने अपनी प्रस्तुति दी एवं प्रतियोगियों को उनकी त्रुटियों के बारे में समझाया। कार्यक्रम के अंत में यह घोषणा की गई कि दिनांक 14/09/2018 आयोजित होने वाले हिन्दी दिवस के अवसर पर सफल प्रतियोगियों को माननीय समाहर्ता, दीव के कर-कमलों से पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे।

